

HANI SINGH



हृदय वक्ष एवं तंत्रिका विज्ञान केन्द्र
ब. रो. वि.
अ. भा. आ. सं., नई दिल्ली-११००२९
Cardiothoracic & Neurosciences Centre, O.P.D.
A.I.I.M.S., New Delhi-110029

दिनांक
Date

CV-13818/2012

Cardiology OPD
Afternoon 2:00 PM

विभाग
Deptt.

Date 18/6/2012

MON.WED.FRICTVS

Name HANI SINGH

18Days/M

उम्र

ब.रो.वि. सं.
O.P.D. No.

S/O ANURAG SINGH

Paid Rs.10/- to

Age

S.R. Room 14

DR.KRISHNAN

लिंग

Consultant 21

DR.RAMANDEEP

Sex

Registration Time : Old Case 8:00 AM TO 11:30 AM

- Trans CCF ⊖

adu

- Syp fuped 0.2ml @

- Paeds OPD for neonatal jaundice ..

(12)

Centralised Laboratory, C N Centre, AIIMS					
H	C	L	PT	D	Others
36	36				
Date		20/6/12			

दिनांक
Date

CSB Dr SRK demand for OHS
Rpt to CWS ~~copied~~.

Ramesh

R 21 (51)
25/6/12

R 3 (11)
27/6/12

Referred to Dr Rahim Aizaz
Room no 20

Dr
27/6/12

27/6/12

For PTA Reparer

To ensure that if repaired



अ० भा० आ० सं० अस्पताल/A.I.I.M.S. HOSPITAL

बहिरंग रोगी विभाग / Out Patient Department

अस्पताल के अन्दर धूम्रपान मना है। / SMOKING PROHIBITED IN HOSPITAL PREMISES

OPR-6

एकक/Unit

विभाग/Dept.

ब०रो०वि० पंजीकृत सं०/O.P.D. Regn. No.

17053/12

नाम/Name	पिता/पुत्र/पत्नी/पति/पुत्री F/S/W/H/D of	लिंग Sex	आयु Age	पता/Address
Harvey Singh		M	18 Days	

निदान/Diagnosis

DOB = 31/05/12

दिनांक/Date

उपचार/Treatment

19 JUN 2012

18

Born at term



40
Yellowish discolor of body - D2 of life → PT for 36 hrs
Innate

2-7 Underlying Truncus arteriosus (+)

Bottle feeding (+)

(already record
7 days before & Amlee
in v/o 2 LRT)

afebrile
HR = 120/min
RR = 36/min
PPV, CRT = 3 sec

Scars (+) upto abd.
not staining palms & soles
- but already record phototherapy
Chest: RT infra axillary
scars (+)

fungal lesion on
neck creases

P/A: top liver palpable 2 cm to RUQ
(child crying)

Adv

• Refd to Peds Cardiology for

- Urgent Bilirubin

- Urgent CX Ray

• Candid powder for neck lesion

→ & needful.

M/S

अंगदान-जीवन का बहुमूल्य उपहार/ORGAN DONATION - A GIFT OF LIFE

O.R.B.O., AIIMS, 26588360, 26593444, www.orbo.org Helpline - 1060 (24 hrs service)

बाहर से आने वाले रोगियों के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है/Dharamshala facility is available for outstation patients

(29)

हृदय वक्ष एवं तंत्रिका विज्ञान केन्द्र CARDIO-THORACIC & NEURO-SCIENCES CENTRE

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

A. I. I. M. S. Hospital

नाम

Name

एक्स-रे नम्बर

X-Ray No.

हस्पताल क्रम नं.

Hosp. C.R. No.

एक्सरे जांच के लिए अंग

Examination Required

चिकित्सक की जांच रिपोर्ट :

Clinical Information :

एक्सरे-फार्म
X-RAY REQUISITION FORM

लिंग

Sex

आय

Income

पेशा

Occupation

पता

Address

Cardiology

CV-13818/2012

Date 18/6/2012 MON.WED.FRICTVS

Name HANI SINGH

S/O ANURAG SINGH

S.R. 14 Cons. 21

Address AHARIA AURANGABAD Bihar

18Days/M

CR

Tranman Ahluwalia

किसी दवा का बुरा प्रभाव

Any History of Allergy

अन्तिम माहवारी तिथि

LMP

कोई पुराने एक्स-रे

Any Previous X-Rays

चिकित्सक के हस्ताक्षर

SIGNATURE OF MEDICAL OFFICER

रेडियोग्राफर के लिए

FOR RADIOGRAPHERS USE

पहचान चिन्ह

Identification Mark

अंगूठा निशान

Thumb Impression

कमरा नं.

Room No.

फिल्म साइज

Size & No. of Films

के. वी.

KV

एम.ए.एस.

MAS

हस्ताक्षर /Signature

रिपोर्ट

REPORT

एक्स रे-चिकित्सक

RADIOLOGIST

ब० रो० वि कार्ड
O.P.D. Card

दृष्टि

मेज अनुमति उपचार हेतु

अनुभाग व दिन
Section and Day
बुधवार व शनिवार
Wednesday & Saturday

VI

कमरा नंबर
Cabin No.

डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र
अ० भा० आयु० सं०, न

Dr. Rajendra Prasad
A.I.I.M.S., New Delhi-

ब० रो० वि० संख्या
O.P.D. No.

DR RAJENDRA PRASAD CENTRE FOR OPHTHALMIC SCIENCES

UHID: 20120212121

Date: 20/06/2012

General

Dept. No.: 20120050072601

HANI SINGH

S/O: ANURAG SINGH

20D/M

OPD-Dr. Viney Gupta

210

Unit-VI

WED, SAT

Room No.: 33

Address: AHARI, AURNGABAD, BIHAR



रोगी का नाम
Name of the Patient

दिनांक
DATE

निदान

DIAGNOSIS

? B/E conjunctivitis

उपचार Treatment

1/0 4E ~~100~~ watering
& secretion since 2 days
of age.

B/E Dfct.

4/10 Congenital heart
disease. diagnosed
recently.

4/10 < 4/10
Not cool?

Full term vaginal delivery - Cried
after birth.

FM/CDRO.4/11
Kledix

Adv.

4/10 4E 4/10 Vigamox 4/10 TDS x 7 days
Review after 7 days

कृपया इस कार्ड को सुरक्षित रखें तथा अस्पताल में दिखाने के समय हर वक्त साथ लायें।

Kindly keep this Card safely and bring it on your follow-up visits.

1. धूम्रपान निषेध
2. कूड़ा कर्कट केवल कूड़ेदान में ही डालें
3. थूकिये नहीं



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-110029

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI -110029

आपातकालीन विभाग

(DEPT. OF EMERGENCY MEDICINE)



UHID No:20120211135

आपातकालीन नं.(Emergency No): 2012/030/0061657

दिनांक DATE: 19/06/2012

समय TIME: 10:54:48 AM

NON-MLC

नाम NAME: MASTER. HUNNY

आयु AGE : 19 days

लिंग /SEX : M

S/O : ANURAG SINGH

पता ADDRESS.

मकान संख्या H.NO:

AHARI ORANGA BAD

गली / मुहल्ला STREET/MOH:

शहर/प्रखंड CITY/BLOCK: BR

पिन PIN:

राज्य STATE:

BIHAR

दूरभाष सं. PHONE NO:

द्वारा BROUGHT BY: Relative : FATHER

स्थान Location:

Paediatrics Emergency

Wt: 2.7 gm

1/1/0 CHD
Pt. came from Ranchi OPD. 600g. 19 days.
c/o yellowish discoloration of body.
X 2 days.

180 H.Li feeding (4)

7/8 c/o Anurag

Afebrile

PA - 120/min

HR - 120/min

RR - 36/min

Chf - 13/2

SpO₂ - 94%

(Room air)
Fleming

C.R. Wnt
Fleming Shadow (+)

S.Bb = 0.4

Na = 130

K = 3.8

Wnt = 14

creat = 6.3

Adly

Keep & observe.

1
Fleming

रक्त न महादान

आपात सेवा हर समय उपलब्ध है।

Emergency Services are available round the clock.

रक्तदान महादान

(1) Vaginal 2 (50) O.D.
 Gonorrhea (50) O.D.
 Resp Ocular (50) O.D. (upto 198)
 Splen
 (2) Gc Discharge (+) Ophthal casualty
 i. sticky eyes (Apc)
 Splen



DEPARTMENT OF CARDIOLOGY
 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
 C.N. CENTRE, ANSARI NAGAR, NEW DELHI - 110029

Dated : 27/6/12

ESTIMATE CERTIFICATE

Name of Patient HANU SINGH
 Age 1 mo Sex M C.V. No. / CTVS No. 13878/12
 Nature of Disease PTA
 Nature of Surgery required TRUNCUS ARTERIOSUS REPAIR
 Amount required for Surgery Rs 1,40,000/- + 40 BLOOD


 (CONSULTANT/SENIOR RESIDENTS)



Affidavit

I, Anurag Singh s/o Sh. Raghbir Singh R/o Krishna Nagar Ahri, Aurangabad Bihar, now at present Ram Nagar, Bahadurgarh, Jhajjar, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am the permanent resident of above said address.
2. That I am doing labourer job, my income from the all sources is Rs. 23,000/- per annum.
3. That I have no other sources of income.
4. That I have to submit this affidavit for treatment of my son Mani Singh, he is the patient of Heart.
5. That it is my true statement.

*Identified
Signed by
Advocate
26.6.12*

Anurag Singh
Deponent

Verification:

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: Bahadurgarh
Date: 26.06.2012.

Anurag Singh
Deponent

Attested as Identified

[Signature]
Executive Magistrate
Bahadurgarh-124001

26/6/12



हरियाणा सरकार

Affidavit Attestation


न: 08304

तिथि: 26/06/2012



ANURAG SINGH

16/2012



DITS Service charges: Rs.10 /- (TEN) /AFFIDAVIT



सत्यमेव जयते

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

WOX0360032



निर्वाचक का नाम : अनुराग कुमार

Elector's Name : Anurag Kumar

पिता का नाम : रघुवीर सिंह

Father's Name : Radhuvir Singh

Sex / लिंग : Male/ पुरुष

जन्म तिथि
Date of Birth

X X X X 1 9 8 9

WOX0360032

पता : ४०, बडेम, बडेम,
शहर/गाँव - बडेम,
अंचल - नबीनगर,
जिला - औरंगाबाद - ८२४११२

Address : 40, Badem, Badem,
Town/Vill - Badem,
Anchal - Nabinagar,
Distt - Aurangabad - 824112

दिनांक / Date : 25/01/2009

२२१, नबीनगर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer
221, NABINGAR Constituency

न्याय बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस
ले पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित थाने में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the
relevant Form for including your name in the roll at the
changed address and to obtain the card with same number.

सेवा में,

श्रीमान मैनेजींग ट्रस्टी

रिलाय इंस्टीट्यूट ट्रस्ट

डी - 22 सेक्टर - 3

नोएडा (उ.प्र.) 201301.

विषय :- मेरे बेटे हनी सिंह के ऑपरेशन हेतु।

श्रीमान,

मैं अनुराग सिंह, राम राज नगर भीरंगवाड़ा
का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे हनी सिंह जिसकी
उम्र अब 2 महीने की है; वह दृश्य में दृढ़ से
पसीता है। इसका इलाज AIIMS अस्पताल
में चल रहा है। डॉक्टर ने 1,40,000 हजार
रुपय इसके ऑपरेशन हेतु बताया है। मैं
इसका डाक्टर हूँ और इतने पैसे का इंतजाम
मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप
से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया मेरे
बच्चे के लिए इलाज में मेरी सहायता करें।
मैं आपका जिंदगी भर आभारी
रहुंगा।

धार्मी

अनुराग सिंह

Anurag Singh